

Amrit Corp. Ltd.

CIN: L15141UP1940PLC000946

ACL/CS/ May 14, 2022

BSE Ltd., The Department of Corporate Services, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, **Mumbai-400 001.**

(Fax: 022-2272 3121/2037)

Company Stock Code - 507525

Sub: Newspaper Publication dated 14.05.2022

Dear Sir,

Further to our letter dated 13.05.2022, we are enclosing herewith the photocopies of the newspaper clippings of the Audited Financial Results for the quarter/year ended March 31, 2022 published in "Financial Express" in English and "Jansatta" in Hindi.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Amrit Corp. Ltd.

(P.K. DAS) Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above


GHAZIABAD (U.P.)

Amrit Corporate Centre

A - 95, Sector-65, NOIDA - 201 309 (U.P.) Ph.: 0120-4506900, 2406166 Fax: 0120-4506910

Website: www.amritcorp.com, Email: info@amritcorp.com

FINANCIAL EXPRESS



BANIKINKAR PATTANAYAK

New Delhi, May 13

TO SOME, NEW chief election commissioner (CEC) Rajiv Kumar, who would oversee the crucial 2024 Lok Sabha polls, is a man for all seasons. To others, the 1984-batch IAS officer of the Jharkhand cadre is the right man for the right job. Beneath these lofty assertions by former colleagues, lies a reticent man who usually avoids limelight but lends his ear to all, knows how to drum up

crunches numbers himself and can implement a goal even under the most challenging circumstances.

consensus,

All these qualities will be put to test, as Kumar assumes charge as the CEC on May

He assumes the crucial office scious bureaucrats by surprise, at a time when the Election Commission of India is increasingly being criticised by the Opposition for allegedly being biased in favour of the ruling BJP. It has also become difficult for the Commission to ensure that its model code of conduct is strictly implemented in an era of hyperactive social media, opinion polls and heated TV debates.

An expert on finance, corporate governance and public policy, Kumar retired as the finance secretary in February 2020. He got to head the Public Enterprises Selection Board (PESB) in April 2020 before

Name of the

Borrower(s) /

Guarantor(s)

M/s Oxygen

infrastructures &

Developers Pvt. Ltd.

D-23. Sector-63. Noida

Guarantor : Smt

Manisha Gaur, Sh.

2 Shri Ravi Kahsyap S/o

Sh Vijay Kumar

Kashyap, & Smt. Ashima

Gupta Kashyap, House

No 905, Pocket C, Sector

12A, Gurugram Haryana

Sh Vinod Kumar S/o Sh

Kartar Singh, Flat No S.F.

-1, Second Floor, House

No 174 (New 159-A),

Turab Nagar, Ghaziabad

201001, Guarantor: Sh.

Maharaj Singh S/o Sh

Guarantor : Smt. Hema

Pawan Gaur

122022

Babu Ram

being appointed election commissioner in August that year. commercial banks hit as mign

as 11.2% in FY18, with provi-

sion coverage at barely 50%.

helm of the finance ministry,

Kumar prepared a plan

involving an unprecedented

capital infusion of ₹2.1 tril-

lion into state-run banks

through FY19. But he tied the

infusion to strict conditions

on the recipient banks' finan-

cial performance, governance

and risk-detection mecha-

nism. "He told the PSBs in no

uncertain term that there was

no free lunch," said a senior

officer who worked with

Kumar became the finance

secretary in late July 2019,

some of the stressed state-

run banks had started to

recover while some others

were showing signs of recov-

ery. During his time, the gov-

ernment decided to merge 10

PSBs to make four larger enti-

ties with larger and stronger

sical music, Kumar also

spends time on meditation

when he is not working. How-

ever, his love for trekking is

more well-known. Kumar had

gone on multiple adventure

treks in Ladakh, Himachal

Pradesh and the Western

Ghats and would often remi-

nisce about those trips with

new chapter of his life, he

would require to go off the

beaten track to further bol-

ster the credibility of the

Election Commission.

STATE BANK OF INDIA, Stressed Assets Recovery Branch – II (51521)

3rd & 4th floor, State Bank House, 18/4, Arya Smaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110 005, Tel.011-28752163 Fax. 28755674, e-mail : sbi.51521@sbi.co.in

"APPENDIX-IV-A" {See proviso to rule 8 (6)} SALE NOTICE FOR SALE OF MOVABLE/IMMOVABLE PROPERTIES

NOTICE FOR E-AUCTION DATED 31.05.2022

SALE OF IMMOVABLE ASSETS CHARGED TO THE BANK UNDER THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND

ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 read with proviso to rule 8 (6) of the security interest (Enforcement Rules, 2002).

The Authorized Officer of State Bank of India (Secured Creditor) has taken over possession (symbolic/physical) of the following property/ies u/s 13(4) of the SARFAESI Act. Public at large and borrowers, mortgagors and guarantors in particular are informed that e-Auction (under SARFAESI Act, 2002) of the charged property/ies in the below mentioned cases for realization of Bank's dues will be held on "AS IS WHERE IS BASIS", "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER

THERE IS BASIS" on 31.05.2022, for recovery of the amount mentioned below due to the Secured Creditor from the Borrowers, Guarantors and Mortgagors.

Date / Time of visit to the property for inspection: 27.05.2022 from 11:00 am to 03:00 pm.

EMD of Reserve price to be transferred by bidders by means of challan generated on his / her / their bidder account

maintained with M/s. MSTC Ltd on its e-auction site https://www.mstcecommerce.com by means

of NEFT from Bidder's Bank, on or before 30.05.2022 up to 4:00 PM.

Date/time of E-auction on 31.05.2022 for 4 Hours from 11:00 am to 03:00 pm with unlimited extn. of 10 min each.

Description of property/ies

& Name of Title Deed Holder

Residential Flat No. A-304, Third Floor, Block-A,

Parsvnath Majestic, Plot No. 18A, Vaibhav Khand,

ndirapuam, Ghaziabad, admeasuring area (flat) 1396

House No 905 Sector 12A Urban Estate Gurugram

Gurugram Haryana measuring 49.50 sq Mtrs and total

covered area 83.93 sq. Mtrs in the name of Mrs Ashima

Flat No.SF-1, Second Floor on plot no. 159-A, Mohalla

Purva Ismail Khan, Turab Nagar, Ghaziabad- UP

measuring 69.69 sq meters (750 Sq feet) in the name of

sg.ft in the name of Smt. Manisha Gaur & Pawan Guar.

Physical Possession with the Bank)

Gupta Kashyap W/o Ravi Kashyap.

(Symbolic Possession with the Bank)

Sh. Vinod Kumar S/o Sh. Kartar Singh

(PhysicalPossession with the Bank)

As he is about to begin a

select journalists.

Alover of Hindustani clas-

balance sheets.

However, by the time

Kumar at the DFS.

With Arun Jaitley at the

"One of Kumar's biggest qualities is that he can spot talent very easily and put them to productive use," a senior officer, who had worked with him for a number of years, told FE. "However, his best quality probably is that no matter how severe is the pressure from the top, he doesn't pass it on to his juniors to release his own. This enables the juniors to work to the best of their capacity," added the officer. When Prime

classical music,

when he is not

A lover of Hindustani Minister Narendra Modi wanted hold an Kumar also spends unusual meeting time on meditation withgovernment officials belongworking. However, ing to various his love for trekking central services, is more well-known. including the junior ones, in

2016-17, catch-

15, replacing Sushil Chandra. ing the usually seniority-con-Kumar had the unenviable job of organising those meetings in 20-30 groups within a tight schedule. As the establishment officer and additional secretary at department of personnel and training, Kumar was also focused on ensuring a 360degree scrutiny of officers in crucial positions, added another officer.

> But Kumar's toughest challenges awaited him at the department of financial services (DFS). When he took over as its secretary in September 2017, the banking system was facing one of its worst crises ever. Gross bad loan ratio of

The Reserve Price and earnest money to be deposited have been mentioned below.

Outstanding Dues

for Recovery of

which Property/ies

is/are being Sold

₹ 71,49,040/-

upto 19-05-2016

future interest

and other

charges extra

₹ 81.90 Lacs

upto 31-12-2020

future interest

and other

charges extra

₹ 40.74 Lacs

upto 31-05-2020

future interest

and other

charges extra

plus future interest

and charges

TERMS AND CONDITIONS OF THE E-AUCTION ARE AS UNDER

4 Smt Hema Singh (Prop.) ₹ 47.93 Lakh (Arjun land & Building at Plot No. 45-46A, Block E, Mansa Ram

Vishal Traders, (as on 31.03.2022) (Physical Possession with the Bank)

Arjun Traders & Sh. Traders) & Rs. 138.72 Park, Uttam Nagar, Delhi-110059, measuring 200 Sq.

Mehar Singh (Prop.) Lakh (Vishal Traders Yards (167.00 Sq Mtrs) in the name of Smt. Hema Singh

'Shrinkflation' hits snacks biz as firms struggle with costs **ADRIJA CHATTERJEE &** est rate increases after the

ANUP ROY May 13

AS INFLATION SURGES, the cheap single-serving packets of staples like soap and cookies aren't budging in price they're just getting lighter.

By paring the weight of fixed-price items — popular among lower income and rural areas at the equivalent of roughly a penny, nickel or a dime firms are using "shrinkflation" to cope with higher input prices while keeping customers.

Reserve Bank of India's surprise hike last week. "We will see more infla-

tion in the next two to three quarters," Ritesh Tiwari, chief financial officer of Hindustan Unilever, whose products are used by nine out of 10 Indian households daily, said in a call with media after the company's fourth quarter earnings on April 27.

Reducing the volume in certain price-point packs is "the only way for us to take price increases."

Above target CPI breaching central bank's 2-6% goal (%, y-o-y) Source: Central Statistics Office, Bloomberg

Companies including Unilever's India unit and domestic consumer goods firms Britannia Industries and Dabur India have moved towards lighter loads in their cheapest packages amid rising costs of edible oils, grains and fuel.

The development isn't unique to India. Eateries in the US, including Subway Restaurants and Domino's Pizza, have taken similar steps to shrink portions in order to cut costs.

The tactic has emerged as Indian consumer prices for the past four months have run above the 6% upper limit of the central bank's target range.

Headline inflation for April surged to an eight-year high of nearly 7.8%, data showed on Thursday, fuelling expectations of further inter-

Reserve Price (Rs.) (below

which property could not be sold.)

Earnest Money (EMD)

10% of the Reserve Price

Bid Increment Amount

₹ 78.43 Lacs

₹ 7.85 Lacs

₹ 0.10 Lac

₹ 42.53 Lacs

₹ 4.26 Lacs

₹ 0.10 Lac

₹ 13.39 Lacs

₹ 1.34 Lacs

₹ 0.10 Lac

₹ 183.60 Lacs

₹ 18.36 Lacs

₹ 1.00 Lac

Name of the

Contact Person

Sh. Sudhir

Kumar Sinha,

Mob.: 9999139990

Sh. Manoj Kumar

Singh

Mob.: 9816636723

Sh. Sudhir

Kumar Sinha.

Mob.: 9999139990

Sh. Manoj Kumar

Singh

Mob.: 9816636723

Sh. Sudhir

Kumar Sinha.

Mob.: 9999139990

Sh. Manoj Kumar

Singh

Mob.: 9816636723

Sh. Sudhir

Kumar Sinha,

Mob.: 9999139990

Sh. Manoj Kumar

Singh

Mob.: 9816636723

For example, a ₹10 (13

135 compared with three months ago, a Delhi-

utor said. At the same price point, a pack of aloo bhujia—apopular crunchy

based distrib-

— made by Haldiram's fell to 42 grams from grams, according to retailers. **—BLOOMBERG**

cent) bar of the company's popular Vim

soap weighs grams

(4.8 ounces). 155 grams about

Guarantor(s)/Legal Heir(s) and immovable Property (ies) / Legal Representative(s) and salty snack 55

NOTES:

Ghaziabad

May 13, 2022

AMRIT CORP. LIMITED CIN: L15141UP1940PLC000946

Regd. Office: CM-28, I" Floor, Gagan Enclave, Amrit Nagar, G.T. Road, Ghaziabad - 201 009 (U.P.) Corp. Office: Amrit Corporate Centre, A-95, Sector-65, NOIDA - 201 309 (U.P.) Tel. No.: 0120-4506900, Fax No.: 0120-4506910, Website: www.amritcorp.com. Email: info@amritcorp.com EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022

(Rs. in Lakhs except per share data) Year ended Quarter ended 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2021 **Particulars** No. (Audited) (Unaudited) (Audited) (Audited) (Audited) Total Income from Operations 1,712.07 1,998.88 1,359.33 5,878.93 3,658.41 344.91 1,463.63 2,230.67 Net Profit/(Loss) for the period (before (263.14)191.51 Exceptional and/or Extraordinary Net Profit/(Loss) for the period before tax (263.14)344.91 191.51 1,463.63 2,230.67 (after Exceptional and/or Extraordinary 280.61 Net Profit/(Loss) for the period after tax (141.27)256.49 1,312.81 1,639.86 (after Exceptional and/or Extraordinary 276.90 (134.65)265.12 1,324.90 1,648.44 Total Comprehensive Income the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 303.82 303.82 303.82 303.82 Equity Share Capital 303.82 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 20,200.29 19,103.26 as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (4.65)9.24 8.44 43,21 52.91 2. Diluted (4.65)9.24 8.44 52.91

The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2022 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on Company's website (www.amritcorp.com)

The detailed Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 20202 and this extract have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on May 13, 2022. The Statutory Auditors have expressed an unmodified audit opinion on the Audited Financial Results and the same with the Audit Report of the Auditors have been filed with BSE Ltd.

The figures of the previous period/year have been regrouped/recast, wherever considered necessary, to conform to current year's classification.

> for Amrit Corp. Limited (N. K. Bajaj) Chairman & Managing Director

> > Possession /

Dhucical

BAJAJ FINANCE LIMITED FINSERV Registered Office: Mumbai-Pune Road, Akurdi, Pune, Maharashtra - 411035

POSSESSION NOTICE

Demand

Motion

Under Section 13(4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002

he undersigned being the Authorized Officer of the Bajaj Finance Limited (BFL) Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security

Branch Office: 1251, 12" floor, Aggarwal Metro Heights, Plot - E5, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034

Interest Act, 2002, and in exercise of the powers conferred under Sub-Section (12) of Section 13 read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002, issued a Demand Notice as mentioned below calling upon the following Borrower(s) and Guarantor(s) and Legal Heir(s) and Legal Representative(s) to pay amount as mentioned against the respective names together with interest thereon at the applicable rates within 60 days from the date of the said Notice incidental expenses, costs, charges, etc. till date of payment and for realization. Description of Description of movable Outstanding Dues

Property (ies) / Secured Asset (s)

Loan Account Nos.	Secured Asset (s)		Notice		Physical
M/s Unicast Autotech Private Limited (Borrower/Mortgagor), M/s Kiran Udyog Private Limited (Corporate Guarantor) Mr. Arvind Jain, Mr. Rajiv Jain Mr. Vivek Jain Mr. Sanjay Jain (through his legal heirs Mr. Ayush Jain and Mr. Samir Jain) (Collectively Personal Guarantors) (Loan Account No. P401ATL0122171, P401ATS0127071, P401ACG2126545)	First Charge by way of mortgage over the Land and Buildings and Plant and Machinery of the Borrower situated at Industrial Plot No. 223 to 226 in the layout formed by KIADB situated at Narsapura, Narsapura Industrial Area, Kolar formed in Sy No. part of 97 & 98, within the Village Limit of Karadunbande Hosahalli and part of 82 Karinavakanahalli Village Narsapura Hobli, Kolar Taluk, Kolar District, Karnataka, admeasuring 16188 sq. mtrs. and ranking pari passu with ICICI Bank. Bounded by: East : KIADB Proposed Road, West : Plot No. 219 to 222, North : Plot No. 227 South : KIADB Proposed Road	First Charge by way of Hypothecation on the following Movable Assets of the Borrower, ranking pari passu with ICICI Bank: a) Movable Assets: all the movable assets of the Borrower, both present and future, including without limitation, all plant and machinery, current assets including (Borrower's stock of raw materials, semi-finished and finished goods, consumable stores), machinery, vehicles and accessories and all other equipments and movable assets of the Borrower, kept or stored at the Borrower's immovable property situated at Plot no. 223 to 226 in the layout formed by KIADB situated at Narsapura, Narsapura Industrial Area, Kolar, Kamataka or at any other place wherever they may be situated. b) Receivables: All monies and amounts owing to, or received or receivable by the Borrower both present and future (whether under any documents or insurance proceeds or otherwise) together with all rights, title and interest thereto. c) Current Assets: All other movable assets of the Borrower both present and future including cash in hand, all investments of the Borrower's rights, title and interest in the movable undertakings of the Borrower's rights, title and interest in the movable undertakings of	09-Aug-2021	Rs 295,592,633 (Rupees Twenty Nine Crore Fifty Five Lacs Ninety- Two Thousand Six Hundred and Thirty Three Only)	PHYSICAL POSSESSION

with further interest as applicable, incidental expenses, costs, charges, etc incurred till date of payment and/or realization.

However since the borrower and guarantors having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the borrower and the guarantors and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below, in exercise of powers conferred on him under section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules, on dates as The borrower and the guarantors in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge

of Bajaj Finance Limited (BFL) for an amount as mentioned and interest, less the subsequent recoveries, if any For Bajaj Finance Limited (BFL) Date: 11.05.2022 Place : Kolar, Distt. Karnataka **Authorized Officer**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda Sale notice for Immovable Properties "APPENDIX- IV-A [See Proviso to Rule 6(2) & 8(6)]

ROSARB, LUCKNOW

1st Floor, V-23, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, Ph. No. 0522-6677636/6677681, Email:sarluc@bankofbaroda.co.in

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 6 (2) & Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, possession of which has been taken by the Authorised Officer of Bank of Baroda, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis for recovery of below mentioned account/s. The details of

Borrower/s/Guarantor/s/Secured Assets/s/Dues/Reserve Price/E-Auction date & time. EMD and Bid increase Amount are mentioned below. Last Date of EMD Submission: 30.05.2022 upto 4:00 PM Date of E-Auction: 31.05.2022 Date & Property Description of the Immovable Property Name & Address of the **Total Dues** Time of E-Inspection Bid Increase Borrower/ Guarantors with Known encumbrances, if any Date & Time Auction Amount 31.05.2022 Rs. 18,72,000 Symbolic 27.05.2022 Borrower: M/s Maharaja 1. Equitable Mortgage of Land & Building of House 47,15,736.29 between 02:00 PM (RP) E m b r o i d e r y , No. 03, P. No. 116, Khasra No. 334, 1/3 Part of Land 10:00 AM + Interest & Rs. 1,87,200/ Properietor- Mr. Bikram Village-Tiwaripur, Tehsil-Bakshi Ka Talab, Distt. other charges Singh Chandhok R/o Lucknow, Area: 71.716 Sq.mtr. in the name of Mrs. (EMD) 06:00 PM 04:00 PM A. Himratna Punit Bhatia Alias Punit Chandhok, Boundaries:-Minus amount Rs. 10,000/-Residency, 5, Balmiki East: 25 ft. wide road. West: Plot No. 99. North: 28 if Any Paid (Bid Increase Marg, Lalbagh, Lucknow-ft, wide road, South: House of Ashok Kumar Amount) mand notice Rs. 16,65,000/- Symbolic 27.05.2022 Guarantor: Mrs. Punit 2. Equitable Mortgage of Land & Building of House No. of possession (RP) Chandhok W/o Mr. 01. P. No. 116, Khasra No. 334, 1/3 Part of Land, Village between Rs. 1,66,500/-10:00 AM Bikram Singh Tiwaripur, Tehsil-Bakshi Ka Talab, Distt. Lucknow. Area: Chandhok, R/o 401, A. 70.16 Sq.mtr. in the name of Mrs. Punit Bhatia Alias Himratna Residency. 5, Punit Chandhok, Boundaries:- East: 25 ft. wide road. (EMD) Rs. 10,000/-04:00 PM Balmiki Marg. Lalbagh, West: House No. 02. North: 28 ft. wide road, South: (Bid Increase Lucknow-226001. Remaining part of Plot No. 115 & 114 Amount) 31.05.2022 Rs. 2,01,000/- Physical 27.05.2022 2. Borrower- M/s Om 1. Equitable Mortgage of Shop No. 20 (UGF (RP) between 21,05,926/-02:00 PM Sarees, Prop. Mrs. (Constructed over Free Hold Plot No. 02 total Area: 10:00 AM Rs. 20,100/-Sarita W/o Mr. Vijay 3540.037 Sq. Mtr. through approved Map bearing + Interest & to (EMD) Kumar, Add.-E-3/293, permit No. 61/17 Date 30.06.1993 issued by LDA) other charges 06:00 PM 04:00 PM Rs. 10,000/-Vinay Khand Gomti measuring 3.717 Sq. Mtr. (40. Sq. Ft.) situated in (Minus amount (Bid Increase "City Center Complex" at China Bazar, Ward-Nagar, Lucknow, U.P. if Any Paid Amount) Jagdish Chandra Bose Marg, Lucknow, Owner Smt. Sarita W/o Mr. Vijay Kumar, Bounded of Shop No. femand notice 20 (UGF) as under:- East: Open Space, West: of possession notice) Corridor, North: Shop No. 21 (UGF) South: Shop No. 19 (UGF) Equitable Mortgage of Shop No. 17 (UGF) Physical 27.05.2022 Rs. 1,86,000/-(Constructed over Free Hold Plot No. 02 total Area: between 3540.037 Sq. Mtr. through approved Map bearing Rs. 18,600/-10:00 AM permit No. 61/17 Dated 30.06.1993 issued by LDA) (EMD) 04:00 PM Rs. 10.000/measuring 3.438 Sq. Mtr. (37 Sq. Ft.) situated in "City Center Complex" at China Bazar, Ward-(Bid Increase Jagdish Chandra Bose Marg, Lucknow Owner: Amount) Smt. Sarita W/o Mr. Vijay Kumar, Bounded of Shop No. 17 (UGF) as under: East: Corridor, West: Shop No. 02 (UGF), North: Shop No. 16 (UGF). South: Shop No.18 (UGF) Equitable Mortgage of Shop No. 112, (LGF) Rs. 1,17,600/- Physical 27.05.2022 (Constructed over Free Hold Plot No. 02 Total Area: between 3540.037 Sq. Mtr. through approved Map bearing 10:00 AM Rs. 11,760/permit No. 61/17 Date 30.06.1993 issued by (LDA) (EMD) to measuring 3.438 Sq. Mtr. (37. Sq. Ft.) situated in Rs. 10,000/-04:00 PM "City Center Complex " at China Bazar, Ward (Bid Increase Jagdish Chandra Bose Marg, Lucknow, Owner Amount) :Smt. Sarita W/o Mr. Vijay Kumar, Bounded of Shop No. 112 (LGF) as under: East: Shop No. 113 (LGF), West: Corridor, North: Shop No. 111 (LGF). South: Corridor 31.05.2022 Rs. 33,42,000/- Symbolic 27.05.2022 3. Borrower- Mr. Arvind All that part and parcel of the property consisting of 02:00 PM

4:00 PM. For any assistance, please call MSTC HELPDESK Nos. 033-40602403, 033-40609118, 033-40645316 and/or Authorized Officer (Contact Person). 1. E-Auction is being held on "AS IS WHERE IS" "AS IS WHAT IS" AND "WHATEVER THERE IS BASIS" and will be conducted "On Line". The auction will be conducted through the Bank's approved service provider MSTC E-Commerce at their web portal https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp

2. To the best of knowledge and information of the Authorized Officer there is no encumbrance on the property/ies , However the intending bidder should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of the property/ies put on auction and claims/rights/dues/affecting the property prior to submitting their bid. The e-Auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of the Bank. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorised Officer shall not be responsible in any way for any third party claims/rights/dues.

Account/ Wallet in which EMD to be remitted: Bidder's own wallet Registered with M/s MSTC Ltd on its e-auction site https://www.mstcecommerce.com/

auctionhome/lbapi/index.jsp by means of NEFT. EMD of Reserve price to be transferred by bidders by means of challan generated on his / her / their bidder account maintained with

M/s. MSTC Ltd on its e-auction site https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp by means of NEFT from his / her / their bank, on or before 30.05.2022 up to

3. The Earnest Money Deposit (EMD) of the successful bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of the unsuccessful bidders shall be refunded. The Earnest money Deposit shall not bear any Interest. The successful bidder shall have to deposit 25% of the sale price, immediately on acceptance of bid price by the Authorized Officer and the balance of the sale price on or before 15th day of the sale. Default in deposit of amount by the successful bidder would entail forfeiture of the whole money already deposited and property shall be put to the re-auction and the defaulting bidder shall have no claim/right in respect of property/amount. 4. For detailed terms and conditions of the sale please refer to the link at the Bank's Service provider's web portal

https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi.index.jsp & at Bank's portal https://www.sbi.co.in STATUTORY SALE NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT 2002

Authorized Officer, State Bank of India, SARB-II, Karol Bagh New Delhi (Branch Code 51521)

financialexp.epap.in

Date: 13-05-2022, Place: New Delhi

Kumar, 2/327, Vastu

Lucknow -226010

Khand, Gomti Nagar,

Place: Lucknow

No. 3/341A, South: 4.5 Mtr. wide road.

24,27,371.60

Rs. 3,34,200/-

Rs. 10,000/-(Bid Increase Amount) For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Bank of Baroda Secured website i.e. www.bankofbaroda.ln/e-

Authorised Officer, Bank of Baroda

Kumar S/o Mr. Krishna Plot No. 2/327, sitauted at Vastu Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Area: 40 Sq. Mtr., Owner: Mr.

Arvind Kumar S/o Mr. Krishna Kumar, within the (Minus amount) 06:00 PM registered sub-district Lucknow and District Lucknow, Boundaries: (as per sale deed) East: Plot No. 2/326, West: Plot No. 2/328, North: Plot demand notice

if Any Paid

+ Interest & other charges of possession

(EMD)

auction.htm & https://ibapi.in. Also, prospective bidders may contact the authorised officer Mob. No. 7565008656, 7565008653, 7565008657.

10:00 AM

04:00 PM

New Delhi

मुंबई, 13 मई (भाषा)।

मुद्रास्फीति को लेकर चिंताएं बढ़ने और विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी रहने से घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। मानक सूचकांक अंतिम क्षणों में बिकवाली के दबाव में आकर लगातार छठे दिन नुकसान के साथ बंद हुए।

बीएसई का तीस शेयरों वाला मानक सूचकांक कारोबार के अंत में 136.69 अंक यानी 0.26 फीसद गिरकर 52,793.62 अंक पर रहा। कारोबार के दौरान यह 855.4 अंक उछलकर 53,785.71 अंक तक पहुंच गया था लेकिन अंतिम घंटे में मुनाफावसूली का जोर रहने से यह नीचे गिर गया। इसी तरह एनएसई का मानक सूचकांक निफ्टी भी 25.85 अंक यानी 0.16 फीसद गिरकर 15,782.15 अंक पर आ गया। सूचकांक में

आइसीआइसीआइ बैंक, एनटीपीसी, भारती एअरटेल, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक और मारुति सजकी को सबसे ज्यादा नकसान हुआ। इसके उलट सन फार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइटीसी, एचयूएल, टाइटन और रिलायंस के शेयर लाभ में रहे। एशिया के अन्य बाजारों में टोक्यो, हांगकांग, सोल और शंघाई के सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए। यूरोपीय शेयर बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी शेयर बाजारों में बृहस्पतिवार को मिला-जुला रुख देखने को मिला था। इस बीच अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.09 फीसद चढ़कर 108.6 डालर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

विदेशी संस्थागत निवेशकों का भारतीय बाजारों से निकासी का सिलसिला जारी है। शेयर बाजार से मिले आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी निवेशकों ने बृहस्पतिवार को 5,255.75 करोड़ रुपए मल्य के शेयरों की बिकवाली की थी।

फोर्ब्स की सूची में भारतीय कंपनियों में शीर्ष पर रिलायंस

एसबीआइ,

नई दिल्ली, 13 मई (भाषा)।

शामिल कंपनियों में से

फोर्ब्स की दुनिया भर की कंपनियों की नवीनतम 'ग्लोबल 2000 सुची में उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दो पायदान चढ़कर 53वें स्थान पर पहुंच गई है। फोर्ब्स ने 2022 के लिए शीर्ष 2,000 कंपनियों की रैंकिंग जारी करते हुए बताया कि इस सूची में दुनिया भर की सबसे बड़ी कंपनियां स्थान पाती हैं जिसके लिए उन्हें बिक्री, लाभ, परिसंपत्ति और बाजार मूल्यांकन जैसे मानकों पर परखा जाता है। इस सची में रिलायंस ने भारतीय कंपनियों में शीर्ष स्थान पाया है। इसके बाद 105वें स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक, 153वें स्थान पर एचडीएफसी बैंक और 204वें स्थान पर आइसीआइसीआइ बैंक है। इस सूची में शामिल अन्य प्रमुख भारतीय कंपनियों में सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी (228वीं रैंक), एचडीएफसी लिमिटेड (268वीं रैंक), इंडियन आयल (357वीं रैंक),टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस लिमिटेड (384वीं रैंक), टाटा स्टील (407वीं रैंक) और एक्सिस बैंक (431वीं रैंक) शामिल हैं।

फोर्ब्स ने कहा, 'इस साल सूचीबद्ध कंपनियों की ग्लोबल 2000 सूची में ऊर्जा और बैंकिंग क्षेत्र की कैपनियां सर्वोच्च रैंक पाने वाली भारतीय कंपनियों में शामिल हैं।' रिलायंस की अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच बिक्री 104.6 अरब डालर रही और यह ऐसी पहली भारतीय कंपनी बन गई है जिसका सालाना राजस्व 100 अरब डालर से अधिक है। फोर्ब्स ने कहा, 'ग्लोबल 2000 में दुनियाभर की सभी सूचीबद्ध कंपनियों में से रिलायंस दो पायदान चढकर 53वें स्थान पर आ गई।

भारतीय कंपनियों में यह पहले स्थान पर है। इस साल की शुरुआत में फोर्ब्स ने अंबानी की कुल संपत्ति 90.7 अरब डालर रहने का अनुमान लगाया था जिसके साथ वह इस साल के अरबपतियों की सूची में दसवें स्थान पर हैं।' एसबीआइ 56.12 अरब डालर के बाजार पूंजीकरण के साथ भारत की बड़ी कंपनियों के मामले में दूसरे स्थान पर है। उसके बाद निजी क्षेत्र के बैंक आइसीआइसीआइ और एचडीएफसी हैं। इस सूची में जुड़ने वाली नई कंपनियों में गौतम अडाणी की अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अडाणी ट्रांसिमशन लिमिटेड और अडाणी टोटल गैस लिमिटेड शामिल हैं। फोर्ब्स ने कहा, 'अडाणी तब सुर्खियों में आए थे जब वह इतिहास के सबसे अमीर एशियाई अरबपित बने।

सार्वजनिक सूचना

एतदुद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि

हम नरेश कुमार वर्मा तथा रेनू वर्मा निवार्स

1/1567, मानसरोवर पार्क, मोतीराम रोड, शाहदरा,

दिल्ली-32 ने अपने पुत्र मयंक वर्मा को उनकी पर्त्न

सिंहत अपनी सभी चल एवं अचल सम्पत्तियों से

बेदखल कर दिया है। हम उनके किसी भी कृत्य के

जनता फ्लैट नं. 853, पॉकेट-बी एसएफ, कैट-ए,

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आयशर मोटर्स

लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : 3रा तल, सलेक्ट

सिटीवाक, ए-3 डिस्ट्रिक्ट सिटी सेन्टर, साकेत, नई

दिल्ली–110017 के रु.10/– (रुपये दस मात्र) प्रति

के 100 इक्विटी शेयरों के लिये शेयर प्रमाण पंत्र सं

26818 जिसका विशिष्ट सं. 2679901-2680000 है

जो सुभाष चन्दर के नाम से पंजीकृत है, गुम हो गय

है। सुभाष चन्दर ने डुटिलकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी

करने के लिये कम्पनी में आवेदन किया है, कि यि

किसी व्यक्ति का उक्त शेयर प्रमाणपत्र के संदर्भ मे

कोई दावा हो, वे इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिने

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत

कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में

प्रकाशित करने के लिये विज्ञापन

केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा

(4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम

बैगक्लूज एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत

कार्यालय एस नं. 69, 2रा तल, बाग दीवार फतेहपुरी,

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''रा.रा. क्षेत्र दिल्ली राज्य'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए आवेदक कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 4 मई, 2022

को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष

प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के अवस्थिति क्लॉज परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी

केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन

से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे

वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी

एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से

चौदह दिनों (14) के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र

द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र,

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा

पंजी. कार्यालयः एस नं. 69, 2रा तल, बाग दीवार

कत्ते एवं के लिये. आवेदक कम्पनी

बैगक्लूज एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड,

सिद्धार्थ कुमार बोथ्रा

DIN: 07616143

करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

बैगक्लूज एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड, CIN: U36999DL2016PTC306855

मेलः sidharth.srcc@gmail.com

फतेहपुरी, दिल्ली-110006

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 14.5.2022

दिल्ली-110006 में है, के मामले में

30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

के भीतर कम्पनी के पास ऐसे दावे दाखिल करें।

पोलियो: 0016812

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 12 मई, 2022

आलोक श्रीवास्तव

हस्ता.

सुभाष चन्दर

एडवोकेट (एम.कॉम., एलएलएम)

जीआरपी-2, फेज-II, सेक्टर-16र्बी

द्वारका, नई दिल्ली-110078

लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

अमेरिकी डालर के मुकाबले रुपया 19 पैसे चढ़कर 77.31 पर आया

मुंबई, 13 मई (भाषा)।

रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डालर के मुकाबले 19 पैसे चढ़ गया। अमेरिकी मुद्रा में आई कुछ कमजोरी से रुपए को बल मिला। इससे पहले बृहस्पतिवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया सार्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ था। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डालर के मुकाबले 77.35 पर खुला, और फिर बढ़त दर्ज करते हुए 77.31 पर आ गया जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 19 पैसे की बढ़त दर्शाता है। रुपया बृहस्पतिवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 25 पैसे की गिरावट के साथ 77.50 प्रति डालर पर बंद हुआ था जो इसका सार्वकालिक निचला स्तर था। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के

मारुति सुजुकी सोनीपत में लगाएगी नया संयंत्र

मुकाबले अमेरिकी डालर की

स्थिति को दर्शाने वाला डालर

सूचकांक 0.19 फीसद की

गिरावट के साथ 104.65 पर आ

नई दिल्ली, 13 मई (भाषा)।

देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआइ) ने शुक्रवार को कहा कि वह हरियाणा में स्थापित किए जाने वाले अपने नए विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण में 11,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। एमएसआई ने शेयर बाजार को नए विनिर्माण संयंत्र के बारे में

जानकारी दी। इसके मुताबिक, कंपनी सोनीपत जिले के आइएमटी खरखोदा में 800 एकड़ जमीन के आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली

छापे में 88.30 लाख रुपए बरामद

नई दिल्ली, 13 मई (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय ने पनामा पेपर लीक मामले से जुड़े एक व्यक्ति के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में उसके मध्य प्रदेश और गोवा स्थित परिसरों पर छापेमारी कर 88.30 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि छापेमारी की यह कार्रवाई संजय विजय शिंदे के खिलाफ की गई। शिंदे के ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड स्थित एक फर्म से लाभकारी हित जुड़े हुए हैं और उसके सिंगापुर के बैंक खाते में विभिन्न विदेशी संस्थानों ने 31 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा करवाई है।

tions ure fine sine 🥳 Punjab & Sind Bank सिद्धार्थ एंक्लेव, आश्रम चौक, नई दिल्ली-14 फोन सं: 011-26349590 ईमेल: d0707@psb.co.in

बैंक दो बोली प्रणाली के तहत, नोएडा में सेक्ट 7, नोएडा, यू.पी. के पास इन्वेंट्री / सामान रखने के लिए न्यूनतम 11 महीने की अवधि व लिए ग्राउंड फ्लोरें / बेसमेंट पर लगभग 3500 वर्ग फुट के कार्पेट एरिया को गोदाम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करत है। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 04-06-2022 शाम 5.00 बजे तक है। विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.punjabandsindbank.co.in

प्राधिकृत अधिकारी

प्रारूप संख्या आईएनसी-26 कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] कंपनी का रिजस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के समक्ष क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र पीठ,

नई दिल्ली (दिल्ली) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उपधारा (5) और कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के उपनियम मैसर्स सहदेव फिनवेस्ट प्रा० लि० CIN NO: U67120DL1996PTC081362

रंजीकृत कंपनी कार्यालय 166, प्रेटर कैलाश नई दिल्ली ढीआई 110048 में...... याचिकाकत आम जनता को वह नोटिस दी जाती है कि वह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 (4 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय दिल्ली राज्य से उत्तराखंड राज्य में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 20.09.2021 को अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम तापन में संशोधन की पृष्टि की मांग की गई है ।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण र यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र पीठ, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० कॉम्पलैक्स, ना दिल्ली- 110003 पते पर पंजीकृत ढाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पते पर भी भेजेगा। आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से

दिनांकः 11/05/2022 मनजीत जोहर (निदेशक) ভী০आई০एन०- 00763984 पता: 104/38, देहरादून रोड निकट जोशी हॉस्पिटल आश्तोष नगर, ऋषिकेश, देहरादून, उत्तराखंड

याचिकाकर्ता (मै० सहदेव फिनवेस्ट प्रा० लि०)

फॉर्म सं0. आईएनसी–28 कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसार क्षेत्रीय निदेशक के समझ.

उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13(4), और कंपनी (नियमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में

एसपीएम एनर्जी प्राइवेट सिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 414/5, ओसियन बिल्डिंग, 12, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 के मामलें में

कंपनी के पंजीकृत कार्यासय को दिल्ली की रा.रा.से. से उत्तर प्रदेश राज्य में बदलने के लिए एतद द्वारा सामान्य जनता को सचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानान्तरित करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 के अन्तर्गत 07 मई, 2022 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैतक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकृत, केंद्रीय सरकार अर्थात, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी की संस्था बिंड नियमावली में परिवर्तन करने की

याधिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को सुचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 414/5, ओसियन बिल्डिंग, 12, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 पर भेजें।

कृते एसपीएम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड उमंग माधूर दिनांकः 14.05.2022 निवेशक

DIN: 05272099 पताः ई-801, पर्ल गेटवे टावर्स, सेक्टर-44, नोएडा सेक्टर 37, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा **उत्तर प्रदेश 201303**

फॉर्म सं0. आईएनसी-26 कंपनी (निषमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसार क्षेत्रीय निवेशक के समक्ष,

उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13(4), और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में

एसपीएम इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 414/5, ओसियन बिल्डिंग, 12, नेहरू प्लेस. नई दिल्ली-110019 के मामलें में

सार्वजनिक सुचना

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को दिल्ली की रा.रा.क्षे. से उत्तर प्रवेश राज्य में बदलने के लिए एतद द्वारा सामान्य जनता को सचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकत कार्यालय को "दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "उत्तर प्रवेश राज्य" में स्थानान्तरित करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत 07 गई. 2022 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केंद्रीय सरकार अर्थात, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमशीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या शपथ पत्र द्वारा समर्थित तसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से बाँदह दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक. उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओं कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को स्थित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के पंजीकत कार्यालय 414/5, ओसियन बिल्डिंग, 12, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 पर मेजें

कृते एसपीएम इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड हस्ता/-स्थानः दिल्ली **जमंत्र** नाशूर निदेशक दिनांकः 14.05.2022 DIN: 05272099

पताः ई-801, पर्ल गेटवे टावर्स, सेक्टर-44

नोएडा सेक्टर 37, गीतम बुद्ध नगर, नोएडा

उत्तर प्रवेश 201303

INVITATION FOR SUBMISSION OF RESOLUTION PLAN FOR IMAGICAAWORLD

ENTERTAINMENT LIMITED UNDER SWISS CHALLENGE METHOD

ImagicaaWorld Entertainment Limited ("IEL" or "Company") owns and operates an integrated entertainment destination, which includes a theme park and a water park (under brand name Imagicaa) and Hotel Novotel Imagicaa. The Company had availed debt facilities ("Facilities") from a consortium of lenders led by the Union Bank of India (the "Lenders"). The Company subsequently came under stress and had not been able to service its debt obligation dues towards the Lenders. In this regard, the Lenders have entered into an inter-creditor agreement on 19 April 2022, in accordance with the Reserve Bank of India's ("RBI") Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets (RBI/2018-19/203 DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19) dated 7 June 2019 (as amended or modified) ("Prudential Framework").

All interested bidders may kindly note that pursuant to the earlier bid process conducted by the Lenders, Lenders have received a binding offer dated 7 January 2022 read with additional letter dated 2 March 2022 ("Primary Offer") from an interested entity("Anchor Bidder") for an aggregate amount of INR 575 Crores and comprises of (i) change in management of the IEL; (ii) issuance of shares of IEL to the Lenders for an amount of INR 75 Crores; and (iii) assignment of all the Facilities for an aggregate amount of INR 500 Crores. together with all underlying securities, pledge, guarantees, undertaking, promises issued by IEL or any third party in relation to the Facilities. The board of directors of IEL in its meeting dated 11 May 2022 have taken on record and approved the Primary Offer subject to receipt of necessary approvals of the Lenders and shareholders of the Company. Basis the Primary Offer submitted by the Anchor Bidder, the Lenders are seeking resolution plans/offers ("Resolution Plan(s)") from eligible bidders having adequate capability as acceptable to the Lenders, to resolve the outstanding debt of the Company through a 'Swiss Challenge' process, using the Primary Offer as the anchor bid or the base offer ("Resolution Process"). The Resolution Plan may also include change of management pursuant to the Prudential Framework along with full and final settlement of the outstanding debt. Accordingly, the Primary Bidder will be accorded an opportunity to better the terms of the highest offer/ bid submitted pursuant to such Swiss Challenge process under the Resolution Process.

BOB Capital Markets Limited (BOBCAPS) has been appointed by the Lenders as the process advisor ("Process Advisor") for the Resolution Process. Interested bidders would be allowed access to the data room including the information memorandum for commencing due diligence and making their binding irrevocable bids on execution of a Confidentiality Deed which is a part of the Bid Document uploaded on the website (https://www.unionbankofindia.co.in/english/tender.aspx or www/bobcaps.in/tenders.asp) and on providing a refundable participation fee of Rs 5,00,000/- (Rupees Five Lakh).

The last date for submission of the Resolution Plan and necessary documents in relation thereto is 31 May, 2022 by 3:00 PM IST. Resolution Plan shall be submitted in a sealed envelope by way of physical copies addressed to Union Bank of India, Stressed Asset Management Branch, 104, Bharat House, Ground Floor, Mumbai Samachar Marg, Fort, Mumbai - 400023. The Bidder shall also submit an electronic copy of the Resolution Plan (password protected) through an email to magic@bobcaps.in and samvmumbai@unionbankofindia.bank

For all updates, amendments, modifications, corrigendum and information in relation to the process, please visit the website (https://www.unionbankofindia.co.in/english/tender.aspx or

www/bobcaps.in/tenders.asp) on a regular basis

Contact Persons	Telephone Number	r E-mail Id		
Ms. Avantika Banerji	022 61389359	magic@bobcaps.in		
	+91 9913337155	samvmumbai@unionbankofindia.ban		

 This advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute an offer from or on behalf of the lenders or any commitment on the part of the Process Advisor/ Lenders. The Process Advisor/ Lenders reserve the right to withdraw/suspend/ modify the Resolution Process or any part thereof, to accept or reject any/all offer(s) at any stage of the process or to vary any terms without assigning any reasons and without any liability. This is not an

 Any extension in timelines / modification in the content of this advertisement will not necessarily be carried out through another advertisement, but may be notified directly on the website as detailed above and interested participants should regularly visit the website to keep themselves updated

regarding clarifications, modifications, amendments or extensions . This is not an offer or an invitation to offer or undertake any sale of





अमृत कॉर्प लिमिटेड CIN: L15141UP1940PLC000946

पंजीकृत कार्यालयः सीएम-28, प्रथम तल, गगुन एन्क्लेव, अमृत नगर, जी.टी. रोड, गाजियाबाद-201009 (यूपी) कॉर्पोरेट कार्यालय: अमृत कॉरपोरेट सेंटर, ए-95, सेक्टर-65, नोएडा-201 309 (यूपी) द्वरभाष नं.: 0120-4506900, फैक्स नं.: 0120-4506910, वेबसाइट: www.amritcorp.com,

ईमेल:info@amritcorp.com

क्रम	विवरण		समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष		
सं.		31.03.2022 (अंकेक्षित)	31.12.2021 (अनंकेक्षित)	31.03.2021 (अंकेक्षित)	31.03.2022 (अंकेक्षित)	31.03.2021 (अंकेक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय	1,712.07	1,998.88	1,359.33	5,878.93	3,658.41
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(263.14)	344.91	191.51	1,463.63	2,230.67
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(263.14)	344.91	191.51	1,463.63	2,230.67
4	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	(141.27)	280.61	256.49	1,312.81	1,639.86
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	(134.65)	276.90	265.12	1,324.90	1,648.44
6	इक्विटी शेयर पूंजी	303.82	303.82	303.82	303.82	303.82
7	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया है।	-	303.02	303.02	20,200.29	19,103.26
8	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)					
	मूलः	(4.65)	9.24	8.44	43.21	52.91
	तरलः	(4.65)	9.24	8.44	43.21	52.91

1. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल की गई 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.amritcorp.com) पर उपलब्ध है। 2. 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के विस्तृत अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की ऑडिट किमटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 13 मई, 2022 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने उक्त अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है तथा उसे लेखा-परीक्षकों के सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ बीएसई लि. में दाखिल किया गया है।

3. उसे चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिये जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि / वर्ष के आँकड़े पुनर्वर्गीकृत/पुनर्प्रसारित किये गये हैं।

अमृत कॉर्प. लिमिटेड के लिए (एन.के. बजाज) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

तिथि: 13 मई, 2022 स्थानः गाजियाबाद



Corporate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749 Registered Office: B-710, Statesman House, 148, Barakhamba Road, New Delhi-110001 Telephone No.: +91-11-23357940; Website: www.icra.in; Email ID: investors@icraindia.com

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022

(₹ in lakh)

S. No.	Particulars	Quarter ended March 31, 2022 (Audited)	Year ended March 31, 2022 (Audited)	Quarter ended March 31, 2021 (Audited)	Year ended March 31, 2021 (Audited)
1	Total income from operations	5,235.65	19,473.14	4,846.41	18,126.72
2	Net profit / (loss) for the period (before tax, exceptional and/ or extraordinary items)	2,643.98	9,334.87	2,205.25	7,166.29
3	Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	2,643.98	9,334.87	2,205.25	7,166.29
4	Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	1,876.63	7,330.93	1,625.45	5,294.54
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	1,901.17	7,378.13	1,633.06	5,320.00
6	Equity share capital	965.12	965.12	965.12	965.12
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	65,513.30	65,513.30	60,492.89	60,492.89
8	Earnings per share (of ₹ 10/- each)				
	Basic :	19.51	76.21	16.90	55.04
	Diluted:	19.51	76.21	16.90	55.04

EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022

(₹ in lakh)

S. No.	Particulars	Quarter ended March 31, 2022 (Audited)	Year ended March 31, 2022 (Audited)	Quarter ended March 31, 2021 (Audited)	Year ended March 31, 2021 (Audited)
1	Total income from operations	9,370.93	34,280.52	8,209.46	30,106.08
2	Net profit / (loss) for the period (before tax, exceptional and/ or extraordinary items)	4,654.35	15,208.63	3,051.72	11,200.51
3	Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	4,654.35	15,208.63	3,051.72	11,200.51
4	Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	3,373.35	11,353.24	2,250.68	8,268.34
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	3,374.99	11,315.54	2,259.38	8,270.06
6	Equity share capital	965.12	965.12	965.12	965.12
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	83,395.91	83,395.91	74,807.59	74,807.59
8	Earnings per share (of ₹ 10/- each) -				200000000000000000000000000000000000000
1	Basic:	34.73	116.74	23.08	84.89
-	Diluted ;	34.73	116.74	23.08	84.89

NOTES:

1. The above is an extract of the detailed format of the annual audited financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited financial results are available on the stock exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com, and on the Company's website www.icra.in.

By Order of the Board of Directors Ramnath Krishnan Managing Director & Group C.E.O. (DIN: 09371341)

बैंक ऑफ़ बड़ोदा Bank of Baroda ED SEEL

क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा रीजन, 13वां तल, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

Place: Gurugram

Date: May 12, 2022

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

परिशिष्ट-IV-A [नियम 6(2) & 8(6) देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2) & 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन आम लोगों को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स को प्रत्याभत – दाता बँक ऑफ बढ़ौदा से – प्रतिभत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसली हेत नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मुल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

-	क्र. सं.	कर्जदार और गारंटर्स का नाम एवं पता	अचल संपत्तियों का विवरण ज्ञात भार के साथ, यदि कोई हो	कुल बकाया	आरक्षित मूल्य (रु.) धरोहर राशि न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी तिथि एवं समय	कब्जा की स्थिति	निरीक्षण की तिथि एवं समय	शाखा का नाम और सम्पर्क नं.
	1	श्री अमित गुप्ता (उधारकर्ता) निवासी ।।। बी, 45—ए, नेहरू नगर—तृतीय, गाजियाबाद—201001	रिहायशी सम्पत्ति फ्लैट नं. सी-703, 7वां तल, टॉवर-सी, ऑफिसर सिटी – 1, गाँव नूर नगर, राज नगर एक्सटेंशन, एनएच-58, परगना लोनी, गाजियाबाद, यू. पी. में स्थित, यह सम्पत्ति श्री अमित गुप्ता के नाम पर है।	72	₹ 22,49,000/- ₹ 2,24,900/- ₹ 10,000/-	31-05-2022 को अर्पाह 02.00 बजे से अर्पाह 06.00 बजे तक	भौतिक कब्जा	25-05-2022 को पूर्वाइ 10.00 बजे से अपीइ 02.00 बजे तक	कौशाम्बी शाखा/ 8929163240
	2	 श्री चंद्रकांत ओबेरॉय पुत्र स्वं. श्री रघु नाथ ओबेरॉय (उधारकर्ता) पताः एफ44/10, राजनगर, गाजियाबाद, यू.पी. श्रीमती शारदा रानी पत्नी श्री चंद्र कांत ओबेरॉय (सह—उधारकर्ता), पताः एफ44/10, राजनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश गैसर्स उदित इंटरप्राइजेज क) श्री उदित ओबेरॉय पुत्र चंद्रकांत ओबेरॉय (प्रोपराईटर) 33, ओम नगर, जीटी रोड के समाने, राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश — 201010 श्री चंद्रकांत ओबेरॉय पुत्र स्वं. श्री रघु नाथ ओबेरॉय (गारंटर) निवासी एफ 44/10, राजनगर, गाजियाबाद, यू.पी. 	जोकि फ्लैट नं. आर-10/एफ-29, प्रथम तल, राज नगर, तह. और जिला गाजियाबाद (यूपी.) में स्थित, क्षेत्रफल 61.03 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री चंद्रकांत ओबेरॉय पुत्र स्वं. श्री रघु नाथ ओबेरॉय के नाम पर है।		₹ 26,80,000/- ₹ 2,68,000/- ₹ 10,000/-	31-05-2022 को अर्पाइ 02.00 बजे से अर्पाइ 06.00 बजे तक	भौतिक कब्जा	25-05-2022 को पूर्वाइ 10.00 बजे से अपीइ 02.00 बजे तक	कौशाम्बी शाखा / 8929163240
	3	श्री विनीत कुमार पाल पुत्र श्री रूप नारायण पाल और श्री विपिन कुमार पुत्र श्री रूप नारायण पाल (उधारकर्ता) निवासीः सी–59, सेक्टर-एमयू–01, ग्रेटर नोएडा जिला गीतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश –201310	ब्लॉक ई. सैक्टर -XU-01, ग्रेटर नोएडा.	रु. 12,56,187.78 (रु. बारह लाख छप्पन हजार एक सौ सतासी और पैसे अहहत्तर मात्र) और दिनांक 07. 06.2018 से संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज साथ में पूर्ण चुकौती की तिथि तक लागत, प्रभार, अन्य प्रमार, अन्य विविध	₹ 87,800/-	31-05-2022 को अर्पाड 02.00 बजे से अर्पाड 06.00 बजे तक	भौतिक कब्जा	25-05-2022 को पूर्वाइ 10.00 बजे से अर्पाइ 02.00 बजे तक	नोएडा —63 शाखा / 8929163251
	4	श्री सुरेश साहनी पुत्र हृदय साहनी और श्रीमती राम साक्षी देवी पत्नी सुरेश साहनी, निवासीः पलैट नं. 1295, ब्लॉक-ए, तृतीय तल, एसईसी-एमयू-।।, ग्रेटर नोएडा,, जीबी नगर, यू.पी.	रिहायशी फ्लैट नं. 1295, ब्लॉक—ए, तृतीय तल, सैक्टर—एमयू—।।, ग्रेटर नोएडा, जीबी नगर, यू.पी में स्थित	रु. 20,99,052 (रु. बीस लाख निन्यान्वे हजार बावन मात्र) और दिनांक 01.09.2019 से भविष्य का ब्याज एवं प्रभार, इत्यादि सहित	₹ 8,78,000/- ₹ 87,800/- ₹ 10,000/-	31-05-2022 को अर्पाइ 02.00 बजे से अर्पाइ 06.00 बजे तक	भौतिक कब्जा	25-05-2022 को पूर्वाइ 10.00 बजे से अपीइ 02.00 बजे तक	नोएडा —63 शाखा / 8929163251

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm & https://ibapi.in पर दिए गए लिंक को देखें।

इच्छक बोलीदाता ऊपर वर्णित सम्पत्ति के समक्ष शाखा से सम्पर्क कर सकते है।

www.readwhere.com

दिनांक : 13-05-2022, स्थान : नई दिल्ली









प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा